



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2017/पौष 21, 1938

No. 19]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2017/PAUSA 21, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 19(अ).—कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 39) की धारा 38 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 38 के उपखंड (1) के अधीन यथा अपेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिनियम की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई हितवद्ध व्यक्ति उक्त प्रारूप नियम पर कोई आपेक्ष या सुझाव देना चाहे, केंद्रीय सरकार को यथा विनिर्दिष्ट अवधि में उप सचिव (पशु कल्याण), भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली को विचार के लिए लिखित में अग्रेषित कर सकता है।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.—**इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) "पशु कल्याण संगठन" से ऐसा कल्याण संगठन अभिप्रेत है जो बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पशुओं के लिए है और जिसमें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण करने के लिए

स्थापन और सोसाइटियों का विनियमन) नियम, 2001 के अंतर्गत किसी जिले में स्थापित पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी भी सम्मिलित है ;

(ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित और धारा 5 के अधीन समय-समय पर पुनर्गठित भारत का पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "प्रजनक" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो प्रजनन और श्वान तथा पिल्लों के विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट नस्लों के अपने श्वान रखता है और जिसमें श्वान भोजन व्यवस्था, घर प्रचालक, मध्यवर्गी संचालक और व्यापारी सम्मिलित हैं ;

(ङ) "भोजन व्यवस्था" श्वान घर प्रचालक जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सम्मिलित है जो श्वानघरों या किसी अन्य स्थापन में अस्थायी रूप से श्वान और पिल्लों को पालता है;

(च) "वाहक" से कोई एयरलाइन, हवाई जहाज, रेल सड़क, मोटर कैरियर पोत परिवहन लाइन या अन्य उद्यम जो किराए पर पशुओं के परिवहन के कारबार में लगा हुआ है, अभिप्रेत है;

(छ) "रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र" से इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र है;

(ज) "श्वान" में पिल्ले सम्मिलित हैं;

(झ) "मध्यवर्ती" से ऐसा कोई व्यक्ति जो पशुओं की उनके विक्रय क्रय के दौरान अंतरिम अभिरक्षा प्राप्त करता है, अभिप्रेत है;

(ञ) "निरीक्षक" से स्थानीय प्राधिकरण या राज्य पशु कल्याण बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसमें राज्य बोर्ड द्वारा लिखित में प्राधिकृत पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि भी सम्मिलित है;

परंतु यह कि कोई व्यक्ति जो पालतू पशु दुकान का मालिक या प्रजनक है या रह चुका है या पालतू पशु दुकान मालिक या प्रजनक से संबंधित रहा है, इन नियमों के अधीन निरीक्षक नियुक्त या प्राधिकृत नहीं किया जाएगा;

(ट) "स्थानीय प्राधिकरण" से विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले के नियंत्रण और प्रशासन सहित विधि द्वारा समय-समय पर लागू करने के लिए नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत हैं ;

(ठ) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ड) "व्यापारी" में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सम्मिलित है जो किसी प्रजनक या पालतू पशु की दुकानों से या अपने या उनकी अपनी प्रजनन सुविधा से या विक्रय के लिए आयातित या किसी अन्य रीति में प्राप्त किए गए श्वानों और पिल्लों का विक्रय करता है, अभिप्रेत है ;

(ढ) "पालतू पशु दुकान" से दुकान, स्थान या परिसर अभिप्रेत है जिसमें साप्ताहिक या अन्य बाजार में कोई दुकान, स्थान या परिसर सम्मिलित है जहां पालतू पशुओं को विक्रय किया जाता है या ठहराया या रखा या विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है या जहां कोई खुदरा या थोक कारबार जिसमें पालतू पशुओं का विक्रय या व्यापार किया जाता है, सम्मिलित है, अभिप्रेत है ;

(ण) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(त) "पशु चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में सभी अन्य पद और अभिव्यक्तियां जो प्रयुक्त हुई हैं और परिभाषित नहीं की गई हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो इनका उस अधिनियम में है ।

3. **बिना रजिस्ट्रीकरण के श्वानों के प्रजनन का प्रतिषेध.**—(1) कोई प्रजनक अपने श्वानों या रखे हुए श्वानों के प्रजनन के लिए और श्वानों तथा पिल्लों के विक्रय के लिए किसी प्रजनन क्रियाकलापों को नहीं करेगा और न ही जारी रखेगा जब तक प्रजनक ने प्रयुक्त किए जाने वाले या उसके द्वारा श्वानों के प्रजनन या प्रजनन के लिए रखे जाने के लिए आशयित स्थापन के संबंध में इन नियमों के अनुसरण में बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया हो।

(2) प्रत्येक प्रजनक स्थापन में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा।

(3) प्रत्येक प्रजनक अपने द्वारा प्रजनन के लिए या श्वानों के प्रजनन कराने के लिए या विक्रय के लिए प्रयुक्त स्थापन को राज्य बोर्ड या बोर्ड द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखेगा।

4. **प्रजनक और स्थापन का रजिस्ट्रीकरण.**—(1) ऐसा व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रजनक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा; जब तक कि,-

(क) व्यक्ति की दशा में, उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो और स्वस्थ चित्त हो तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधेय के अधीन संविदा करने के लिए अनर्हित न हो; और

(ख) किसी अन्य दशा में, व्यक्ति, निगम, कंपनी या व्यक्तियों का संघ है तो तत्समय प्रवृत्त कसी विधि के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हो।

(2) प्रयुक्त प्रजनन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जो उसके द्वारा प्रजनन या प्रजनन के लिए रखे श्वानों के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के आशय से स्थापन के संबंध में है, पहली अनुसूची से संलग्न प्ररूप में, उससे अपेक्षित सभी सूचनाओं को देते हुए और पांच हजार रुपए के गैर-प्रतिदाय वाली शुल्क सहित राज्य बोर्ड को करेगा।

(3) प्रजनक से श्वानों के प्रजनन या श्वानों की प्रजनन के लिए रखे जाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने से आशयित प्रत्येक स्थापन के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन करना अपेक्षित होगा।

(4) राज्य बोर्ड, उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्रजनक के स्थापन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के प्राधिकृत प्रतिनिधि और पशु चिकित्सा व्यवसायी सहित एक टीम द्वारा निरीक्षण कराएगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट टीम निरीक्षण के पश्चात् राज्य बोर्ड को टीम के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) राज्य बोर्ड, उपनियम (5) के अधीन प्रस्तुत टीम की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और समाधान होने पर कि प्रजनक और स्थापन इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तो उस स्थापन के संबंध में प्रजनक को रजिस्टर करेगा।

(7) राज्य बोर्ड, किसी स्थापन के संबंध में रजिस्टर नहीं करेगा, यदि,-

(क) प्रजनक द्वारा प्रस्तुत कोई सूचना असत्य पाई जाती है या आवेदन में सार रूप से और जानबूझ कर सत्य कथन किया गया है या राज्य बोर्ड को अभिलेख प्रदान किए गए हैं; या

(ख) प्रजनक रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन को प्रस्तुत करने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में अधिनियम या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1992 (1992 का 59) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है; या

(ग) प्रजनक निरीक्षण टीम को स्थापन के खुले और निर्बाध निरीक्षण को अनुमति देने के लिए अनुमति नहीं देता है; या

(घ) प्रजनक नियम 6 के अधीन अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

(8) जहां राज्य बोर्ड प्रजनक को उसके स्थापन के संबंध में रजिस्टर करता है, वहां राज्य बोर्ड उसके कारण प्रजनक को लिखित में सूचित करेगा।

(9) राज्य बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और राज्य बोर्ड को पांच हजार रुपए के शुल्क के साथ किए गए आवेदन पर उसका नवीकरण किया जा सकेगा।

(10) इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा।

5. **रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.**—(1) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकरण के अवसान से कम से कम तीस दिन पहले पहली अनुसूची में संलग्न प्ररूप में राज्य बोर्ड को करेगा और नियम 4 के उपबंध परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) राज्य बोर्ड, स्थापन के संबंध में प्रजनक के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण नहीं करेगा जब तक राज्य बोर्ड टीम की रिपोर्ट पर विचार कर समाधान कर लेता है कि प्रजनक और स्थापन नियम 6 और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है।

6. **प्रजनक और प्रजनन के लिए रखे गए श्वानों या प्रजनन के लिए प्रयुक्त स्थान द्वारा अपेक्षाओं का पूरा किया जाना.**—प्रजनक दूसरी अनुसूची में बताए गए मानकों और अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

7. **स्थापनों का निरीक्षण.**—(1) राज्य बोर्ड शिकायत के प्राप्त होने पर या किसी अन्य कारण से प्रजनक के किसी स्थापन का अपने इस निमित्त द्वारा लिखित में प्राधिकृत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत निरीक्षक अपने प्राधिकार को प्रस्तुत कर-

(क) किसी युक्तियुक्त समय पर स्थापन में प्रवेश और स्थापन में सभी क्षेत्रों पर पहुंच कर तथ्या सभी पशुओं और अभिलेख क्या इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है, को विनिश्चित करने की,

(ख) चित्र, अभिलेख वीडियो और अभिलेखों की प्रतियां बनाने की,

शक्ति रखेगा।

(3) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रजनक का स्थापन प्रत्येक वर्ष कम से कम बार निरीक्षण करेगा।

(4) निरीक्षक, राज्य बोर्ड को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि राज्य बोर्ड, उपनियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह विचार रखता है कि इन नियमों की किसी अपेक्षा का प्रजनक द्वारा उल्लंघन किया गया है तो प्रजनक रिपोर्ट की प्रति देने के पश्चात् कारण बताने का अवसर देता है, उसके स्थापन की बाबत प्रजनक का रजिस्ट्रेशन अप्रतिसंहत कर देगा और उसके कारण लिखित में उसको सूचित करेगा।

8. **विक्रय की दशाएं.**—(1) प्रत्येक प्रजनक यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) आठ सप्ताह से कम आयु के पिल्ले न विक्रय किए जाएं ;

(ख) छह मास से अधिक आयु के श्वान बिना प्रथम विसंक्रमित किए नहीं बेचे जाए जब तक कि वे अन्य अनुज्ञप्ति धारक प्रजनक को बेचे जाने हैं ;

(ग) श्वान और पिल्ले परीक्षण में प्रयोग के लिए नहीं बेचे जाएं। जब तक कि क्रयकर्ता अधिनियम की धारा 15 के अधीन गठित पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए समिति से रजिस्ट्रीकृत न हो :

(घ) केवल अच्छे स्वास्थ्य में श्वान जिन्हें चिकित्सीय टीक प्रदत्त किए जा चुके हैं, ही विक्रय किए जाएंगे ;

(ङ) प्रत्येक विक्रीत पिल्ले माइक्रोचिप युक्त है और उपचार और वैक्सीन दिए जाने का पूरा अभिलेख रखा जाए ;

(च) तुरंत विक्रय के प्रयोजन के लिए लोक स्थानों में पिल्ले प्रदर्शित न किए जाएं ; और

(छ) प्रत्येक क्रय कर्ता को विक्रीय की रसीद दी जाए और उसकी प्रति विक्रीत पिल्ले के माइक्रोचिप संय और विक्रयकर्ता के नाम तथा फोन संय सहित रखी जाए।

(2) कोई प्रजनक का प्रजनन नहीं करेगा जब तक वह पिल्लों के लिए प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की छानबीन नहीं कर लेता।

(3) प्रजनक क्रेता को पोषण के ब्यौरे, टीकाकरण की तारीख और पिल्लों में विकृमिकरण तथा पशु चिकित्सा व्यवसायी जिसने उसका उपचार किया है, का नाम और पता लिखित में देगा।

(4) प्रत्येक प्रजनक संभावित क्रेताओं के नस्ल की उचित देखभाल को लेकर उनकी क्षमता का विनिश्चय करने के लिए छानबीन करेगा, विशेषतः यदि वह लंबी हो और उसके बनाव श्रृंगार, सामाजिकीकरण, स्थानिक तथा पशु चिकित्सीय आवश्यकताओं तथा इसके पालने और रखरखाव के लिए व्यय को सहन की क्षमता।

(5) कोई प्रजनक बिना अनुज्ञप्ति पालक पशु दुकान चलाने वाले को विक्रय नहीं करेगा।

(6) प्रजनक उत्पादित और विक्रीत सभी पिल्लों का ध्यान रखेगा और यह प्रजनक का दायित्व होगा कि उनकी प्रगति और उसके द्वारा बेचे सभी श्वानों के स्वास्थ्य की दशा का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार सूचना प्राप्त करें।

(7) प्रत्येक प्रजनक छह मास की अवधि में विक्रीत न हुए पिल्ले को पुनर्वास बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पशु कल्याण संगठन के माध्यम से पुनर्वास करेगा।

9. **अभिलेख.**—(1) प्रत्येक प्रजनक स्थापन में रखे सभी पशुओं जिनमें प्रजनन के लिए रखे श्वान और विक्रय के लिए श्वान तथा निरीक्षण के लिए रखे जाने वाले श्वान भी सम्मिलित हैं, के अभिलेख रखेगा।

(2) प्रत्येक प्रजनक हर श्वान दोनों नर और मादा का अभिलेख जिसमें निम्नलिखित सूचना भी सम्मिलित है, रखेगा, अर्थात् :-

- (क) प्रजनन
- (ख) नाम और संख्या (सी.आर.लिटर सं.)
- (ग) माइक्रोचिप सं.
- (घ) लिंग, रंग और निशान
- (ङ) जन्म की तारीख
- (च) नाम और प्रजनक और मादा का माइक्रोचिप सं.
- (छ) प्रजनक का नाम जिससे अर्जित किया गया है (जहां लागू हो)
- (ज) व्यक्ति जिससे सीधे अर्जित किया गया है (जहां लागू हो)
- का नाम और पता
- (झ) अर्जित करने की तारीख
- (ञ) पट्टे की तारीख और अवधि, यदि कोई हो
- (ट) संगम की तारीख और स्थान
- (ठ) संगम करने वाले व्यक्ति के नाम
- (ड) श्वान का नाम और सं., जिसमें माइक्रोचिप सं., जिससे संगम हुआ सहित
- (ढ) मालिक का नाम और पता (जहां लागू हो)
- (ण) ब्याने की तारीख
- (त) ब्याहे पिल्लों की संख्या, लिंग, रंग और निशान द्वारा
- (थ) ब्याने का रजिस्ट्रीकरण सं., यदि कोई हो
- (द) विक्रय की तारीख, प्रत्येक पिल्ले की मृत्यु या पुनर्वास वर्णन सहित
- (ध) क्रेता का नाम पता
- (न) स्थापन में मृत प्रत्येक श्वान का पशु चिकित्सक द्वारा यथा अवधारित मृत्यु का कारण, और
- (ण) कोई अन्य सूचना जो बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा सुसंगत न हो।
- (ऊ) प्रत्येक प्रजनक विक्रय दस्तावेज, पट्टा बंदोबस्त या अकर्मक संविदा और श्वानों और उनके स्थापन से संबंधित अन्य कोई

- (4) प्रत्येक प्रजनक प्रत्येक श्वानया स्वास्थ्य और चिकित्सीय अभिलेख रखेजा चाहे वह नर या मादा हो तथा श्वान या पिल्ला प्रत्येक व्याया में प्रत्येक श्वान जो बेचा जाएगा तो अभिलेख की प्रति क्रेता को प्रदान की जाएगी।
- (5) इन नियमों के अधीन प्रजनक द्वारा रखे सभी अभिलेख कम से कम आठ वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे जब तक कि राज्य बोर्ड अन्वेषण के प्रयोजन के लिए अधिक अवधि के लिए अभिलेख रखने के लिए लिखित में निर्देश न दे।
10. **अपील.**—(1) राज्य बोर्ड के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई प्रजनक विनिश्चय की प्राप्त के तीस दिन के भीतर स्थानीय शासकीय निकाय जैसे, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर को अपील करेगा।
- (2) स्थानीय शासकीय निकाय जैसे, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर प्रजनक और राज्य बोर्ड को नोटिस देने के पश्चात् पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपील को लिखित में कारणों को अभिलिखित करके मंजूर या नामंजूर करेगा और प्रजनक और राज्य बोर्ड को संसूचित करेगा।
11. **प्रजनक द्वारा रिपोर्ट.**—इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक प्रजनक —
- (क) प्रत्येक वर्ष के अंत में राज्य बोर्ड को एक रिपोर्ट जिसमें कुल बेचे गए, व्यापार किए गए, बदले गए, दिए गए, पूर्व वर्ष के दौरान रखे गए या प्रदर्शित किए पशुओं की संख्या होगी।
- (ख) राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर, यथास्थिति, अपेक्षित ऐसी कोई अन्य सूचना
- (ग) राज्य बोर्ड प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक समेकित रिपोर्ट जिसमें पूर्व वर्ष में कुल विक्रीत, व्यापार किए गए, बदले गए, दलाली किए गए, दिए गए, रखे गए या प्रदर्शित किए पशुओं की संख्या होगी और ऐसी अन्य सूचना बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, समय-समय पर अपेक्षा की जाए,
- प्रस्तुत होगा।
12. **इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रजनक की मृत्यु का प्रभाव.**—इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रजनक की दशा में रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से पहले मृत्यु होने पर स्थापन की बाबत रजिस्ट्रीकरण उस स्थापन की बाबत उसके विधिक उत्तराधिकारियों को प्रदान कर दिया जाएगा और प्रजनक की मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि के अंत तक प्रभावी रहेगा और उसके पश्चात् स्थापन की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन इन नियमों के अनुसार स्थापन को जारी रखने के लिए करेगा।
13. बिना रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञप्ति नहीं- प्रजनन के लिए प्रजनन करने या रखे जाने वाले श्वानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले या किए जाने से आशयित स्थापन को स्थानीय निकाय द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि प्रजनक ने राज्य बोर्ड से इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है।

पहली अनुसूची

[नियम 4(2) और 5(1) देखें]

प्ररूप

किस स्थापन की बाबत प्रजनक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

राज्य पशु कल्याण बोर्ड,

----- (राज्य का नाम)

विषय- स्थापन के संबंध में प्रजनक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

महोदय,

मैं/हम नि. कार्यालय पते सहित नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसरण में स्थापन की बाबत प्रजनक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं :-

- (1) आवेदक (प्रजनक का नाम और पता :
- (2) स्थापन का नाम और पता :
- (3) दूरभाषा संख्या :
- (4) प्रस्तावित स्थापन पर उपलब्ध आवास और आधारभूत संरचना का व्यौरा :
- (5) कार्य दिवस और विश्राम दिवस जैसे जिस दिन स्थापन बंद रहेगा
- (6) संवातन व्यवस्था
- (7) प्रकश व्यवस्था :
- (8) उष्मण या शीतलन व्यवस्था और रीति जिसमें सभी पालतू पशुओं के लिए सहज तापमान रहे :
- (9) खाद्य भंडारण की व्यवस्था :
- (10) स्वच्छता, पशुओं के मलमूत्र और अवशिष्ट के हजाने की व्यवस्था कैसे रखी जाएगी :
- (11) मृत पशुओं के निस्तारण के लिए व्यवस्था :
- (12) चिकित्सीय और पशु चिकित्सीय सहायता :
- (13) स्थापन के प्रजनन के लिए प्रस्तावित श्वानों के व्यौरे :
 - (क) प्रत्येक नस्ल के श्वान की नस्ल और संख्या :
 - (ख) श्वान की आयु :
 - (ग) आवास और पिंजड़ों और वार्डों की संख्या और आकार :
- (14) प्रजनन क्रियाकलापों के संबंध में आवेदक (प्रजनक) की अर्हता और अनुभव :
- (15) शुल्क के भुगतान का विवरण अथवा चैक और डिमांड ड्राफ्ट संख्या और व्यौरे :

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की दशा में अतिरिक्त व्यौरे
- (16) अर्जित और संगम कराए गए श्वानों के व्यौरे :

क्र. सं.	श्वान की माइक्रोचिप सं.	अर्जन की तारीख	संगम की तारीख	किससे संगम कराया गया उसका माइक्रोचिप सं.	पैदा हुए पिल्ले (माइक्रोचिप सं.)

- (17) मृत्यु के कारणों सहित श्वानों और पिल्लों की संख्या और माइक्रोचिप संख्या :

- (18) विक्रय किए गए श्वानों/पिल्लों के व्यौरे :

क्र. सं.	विक्रय किए गए श्वान/पिल्ले (माइक्रोचिप सं.)	श्वान/पिल्लों की आयु	विक्रय की तारीख	विक्रय मूल्य	क्रेता का नाम, पता और दूरभाष सं.

(19) अविक्रीत पिल्लों की संख्या और उनके पुनर्वास की रीति :

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सूचना सही और सत्य है।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

दूसरी अनुसूची

[नियम 5(2) और 6 देखें]

भाग 1

प्रजनक द्वारा स्थापन में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

1. **उचित श्वान-घर या निवास स्थान.**—श्वान, हमेशा उचित श्वान-घर या निवास स्थान में सभी संदर्भों में उपर्युक्त रीति में रखे जाएंगे, जहां सन्निर्माण, आकार, श्वानों की संख्या, व्यायाम सुविधाएं, उचित तापमान, प्रकाश, वातायन और सफाई हो।

2. **पर्याप्त गृह.**—(1) पर्याप्त गृह जिसमें स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, कठोर मौसम से संरक्षण, उचित संवातन और समुचित स्थान उपलब्ध होगा।

(2) सभी आवास अपारगम्य सामग्री से बने होंगे जिसको स्वच्छ किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए काष्ठ का उपयोग नहीं किया जाएगा।

3. **आंतरिक आवास सुविधा.**—संस्थापन में आंतरिक आवास सुविधा के साथ पर्यावरण नियंत्रण, आवासन या श्वान घर से आशयित है और निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, अर्थात् :-

(i) यह कोठार या भवन में पूर्णतया संबद्ध दौड़ या बाड़ा से मिलकर या पूर्णतया संबद्ध भवन के अंतर्गत संलग्नित भीतर या बाहर दौड़ या बाड़ा से मिलकर बन सकेगा ;

(ii) उस प्रजाति को जिसके लिए परिसीमा निर्धारित की गई है वह गृह या संरचना तापमान भवन के अंदर, पशु की उम्र, आर्द्रता का स्तर बनाए रखने के लिए तथा गृह के अंदर शीघ्रता से दुर्गन्ध को हटाने के सक्षम होगा ;

(iii) एक इसकी अपारगम्य सतह होगी। अपारगम्य सतह से ऐसी सतह अभिप्रेत से है जो किसी तरल पदार्थ का अवशोषण अनुज्ञात नहीं करती है ;

(iv) यह एक ऐसा बाड़ा होगा जो अनवरत छत, फर्श और दीवारों से संयोजित होते हुए निर्मित होगा ;

(v) इसमें कम से कम एक प्रवेश और निकास होगा जो खोला और बंद किया जा सकता हो, जिसमें प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध हो, जो एक पारदर्शक पदार्थ जैसे, कांच या कठोर प्लास्टिक से आच्छादित होगा।

4. **श्वानों की देखरेख और अनुरक्षण – श्वानों को निम्नलिखित प्रदाय किया जाएगा –**

(क) उचित अंतरालों में जो आठ घंटे से अधिक का नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यप्रद भोजन और जो उस प्रजाति या उम्र के लिए पर्याप्त हो तथा प्रत्येक पशु के युक्तियुक्त पोषण स्तर बनाए रखे के लिए पर्याप्त हो तथा सुरक्षित पात्र, थाली या आधान में परोसा जाए; या

(ख) सुरक्षित पात्र, थाली या आधार में ताजा, स्वच्छ पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति और प्रत्येक समय उपलब्ध होगा ; और

(ग) समुचित अभ्यास के लिए एक बाड़ायुक्त क्षेत्र या पट्टे के साथ कुत्ते के अभ्यास की व्यवस्था होगी।

भाग 2**प्रजनकों द्वारा पालन की जाने वाली अपेक्षाएं**

5. **प्रजनन संबंधी अपेक्षाएं.**—(1) प्रजनक प्रत्युत्पादन, पोषण, संपूर्ण स्वास्थ्य और देखभाल, आरंभिक व्यवहार विकास और प्रजनन आचार का जानकार होगा।

(2) केवल सामान्य, स्वस्थ, परिपक्व श्वान जो अठारह मास की हो गई हो, संवर्धित किया जाएगा तथा संवर्धन से कम से कम दस दिन पूर्व उसके स्वास्थ्य को किसी पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(3) किसी मादा श्वान को लगातार दो प्रजनन काल में बच्चे देने के लिए शोषित नहीं किया जाएगा।

(4) किसी मादा श्वान का इस तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा कि वे पिछले पिल्लों को जन्म देने के दिन के पश्चात् बारह मास पूर्व पिल्लों को जन्म दे।

(5) एक वर्ष में केवल एक ही बार पिल्ले पैदा करेगी।

(6) किसी मादा श्वान को इस बात के लिए शोषित नहीं किया जाएगा कि वह अपने जीवनकाल के दौरान पांच बार पिल्ले पैदा करे।

(7) श्वान को प्रजनन के लिए तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्वस्थ, परिपक्वता और अठारह वर्ष की उम्र पूर्ण न कर ले तथा सहवास से कम से कम दस दिन पूर्व उसके स्वास्थ्य को पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

6. **सामान्य प्रजनन तकनीक.**—(1) प्रजनक निम्नलिखित चार सामान्य प्रजनन तकनीक के जानकार हों, अर्थात् :-

(i) बाह्य प्रजनन ;

(ii) श्रेणी प्रजनन ;

(iii) अंतः प्रजनन ; और

(iv) अगम्यागमन प्रजनन।

(2) पैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित दो प्रजनन तकनीकों को इस नियम के अधीन अनुमति और स्वीकृति प्रदान की गई है, अर्थात् :-

(i) बाह्य प्रजनन – श्वानों का संसर्ग, जो एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है; और

(ii) श्रेणी प्रजनन – श्वानों के मध्य संसर्ग, जो एक दूसरे से सीमांत रूप से संबंधित हों और ऐसे मामले में श्वानों को उनके विशेष गुण के लिए चुना जाता है।

(3) निम्नलिखित दो संसर्ग तकनीक की अनुज्ञात नहीं है और इन नियमों के अधीन प्रतिबंधित किया गया है –

(i) अंतः प्रजनन – श्वानों के मध्य संसर्ग, जो संबंधित नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों ओर से प्रजनक या प्रजनिका में से कम से कम कोई एक पूर्वज हो। प्रजनन में प्रथम चार पीढ़ियों के भीतर सीधी और पार्श्व पंक्ति में द्वितीय से चतुर्थ श्रेणी के बीच संबंधित हों जैसे चाचा और भतीजी, भतीजा और चाची, चचेरा भाई बहन, पितामह पितामही से पौत्र पौत्री तक।

(ii) सगोत्र प्रजनन – माता पिता और बच्चे या भाई और बहन के बीच संसर्ग, जैसे प्रथम श्रेणी के संबंधी। सगोत्र प्रजनन साथ ही साथ सतत् अंतः प्रजनन और श्रेणी प्रजनन जोखमयुक्त है, जो वंशानुगत रोगों के खतरे को बढ़ाता है।

(4) मादा श्वान आठ वर्ष की उम्र के पश्चात् संसर्ग नहीं करेगी।

(5) प्रत्येक प्रजनक, पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मादा श्वान या प्रजनन उम्र का प्रमाण देगा।

(6) प्रत्येक प्रजनक एक बार के पिल्ले का एक पूर्ण अभिलेख रखेगा जो श्वान या मादा श्वान से पूर्वतः उत्पादित और एक बार के पिल्ले से संबंधित अन्य विवरण होगा।

(7) प्रत्येक प्रजनन करने वाली मादा श्वान को संसर्ग से पूर्व उसके टीकाकरण वर्धकों और कृमिरहित करके अद्यतन रखा जाएगा।

(8) पिल्ले का पूंछ काटना, कान काटना या किसी अन्य प्रकार का अंग-विच्छेद और कृत्रिम साधनों द्वारा किसी प्रकटन का परिवर्तन कठोरता से निषिद्ध होगा।

भाग 3

स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं

7. **स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं.**—प्रत्येक श्वान को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रखा जाएगा और सभी सामाजिक अवसरों, टीकाकरण और स्वच्छता जो मानसिक एक शारीरिक कल्याण के लिए अधिकतम आवश्यक हो, उपलब्ध किया जाएगा।

8. **पशु चिकित्सा देखरेख.**—(1) प्रत्येक प्रजनक के पास परामर्शी पशु चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएं आपात चिकित्सा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होंगी और उसके भ्रमणों के अभिलेखों को लिखित में रखा जाएगा।

(2) परामर्शी पशु चिकित्सा व्यवसायी आवधिक रूप से स्थापन का नियमित अंतरालों पर भ्रमण करेगा और स्थापन में प्रत्येक स्वान की चिकित्सा जांच कम से कम एक बार प्रत्येक मास की जाएगी और प्रजनिक द्वारा उसका अभिलेख रखा जाएगा।

(3) 8 सप्ताह से अधिक आयु के या मुक्त किए गए या किसी चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा उपचार किए गए सभी जानवरों का, चाहे इनमें से जो भी पहले हुआ हो, व्यक्तिगत स्वास्थ्य अभिलेख रखा जाएगा।

(4) दिए गए बच्चों के स्वास्थ्य अभिलेखों को बच्चों के लिए तब रखा जाएगा जब बच्चों के जोड़ों का उपचार समान औषधियों या प्रक्रिया से किया जाता है और स्वास्थ्य अभिलेख (या उसकी प्रति) स्वामित्व अंतरण पर सभी जानवरों के साथ होगी।

(5) प्रत्येक स्वान के स्वास्थ्य और उसकी देखभाल का पता लगाने के लिए प्रत्येक प्रजनक यह सुनिश्चित करेगा कि दैनिक परीक्षण किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाए या किसी परा-पशु चिकित्सक द्वारा यदि प्रत्यक्ष और निरंतर संचार का एक तंत्र स्थापित किया जाता है ताकि पशु स्वास्थ्य, व्यवहार और देखभाल की समस्याओं पर समयबद्ध और सटीक सूचना का सलाहकार पशु चिकित्सा व्यवसायी को संप्रेषण किया जा सके।

(6) पशु देख-रेख में सम्मिलित कार्मिकों के पर्याप्त प्रशिक्षण और मार्ग दर्शन के लिए जिसके अंतर्गत प्राणियों का दैनिक संप्रेषक है की अपेक्षा हो तो प्रजनक केवल ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करेगा जो इन नियमों द्वारा अपेक्षित स्तर पर कार्य कर सकें।

(7) यदि पशु चिकित्सा व्यवसायी स्थापन को भ्रमण के प्रक्रम के दौरान या राज्य बोर्ड द्वारा उस ओर उसका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर यह पाता है कि प्रजनक स्वान से कोई पशु संक्रामक संचारी या संसर्गज रोग से पीड़ित है या वह किसी रोग से पीड़ित है तो पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उस स्थापन को तब तक एक संगरोध जारी किया जा सकेगा जब तक कि पशु-

(i) ठीक नहीं हो जाते हैं और रोग को पारेषित करने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं ; या

(ii) उन्हें अलग नहीं कर दिया जाता है ; या

(iii) उनकी जांच नहीं कर दी जाती है, टीकाकरण नहीं किया जाता है या अन्यथा उपचार नहीं किया जाता है ; या

(iv) किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा मानवीय रूप से उनकी मृत्यु कारित नहीं की जाती है और समुचित रूप से उनका निपटान नहीं कर दिया जाता है।

(8) किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी संगरोध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिखित में निर्मुक्त नहीं कर दिया जाता और ऐसे संगरोध के विषय में जारी सूचना पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा राज्य सरकार के पशु पालन विभाग और राज्य बोर्ड को लिखित में प्रदान नहीं कर दी जाती है।

(9) सभी पिल्लों का टीकाकरण किया जाएगा जो सात-आठ सप्ताह की आयु पर प्रारंभ किया जा सकता है और जिसे प्रायिक रूप से अठारह सप्ताह की आयु तक पूरा कर लिया जाता है।

(10) स्वान की आनुवांशिक खामियों के लिए जांच की जाएगी जिसके अंतर्गत हिप डिस्कलेशिया, प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी, रात्रिअंधता, हाइपोथाइरोइडिज्म, एंट्रोपियोन, एक्स्ट्रोपियोन, ओवरशोट, अंडरशोट जॉ (जब कृतक एक-दूसरे को नहीं छूते या फंसते हैं), राई माउथ, दो या उससे अधिक दांतों का न होना, एकतरफा क्रिप्टोरकिड या पूर्णतया क्रिप्टोरकिड मेल्स

9. सहजमृत्यु.—प्राणघातक घाव वाले या क्षतिग्रस्त पशुओं या असाध्य रूप से बीमार या अन्त्य रूप से रुग्ण पशुओं के सभी सहजमृत्यु की प्रक्रिया भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित रीति में और पद्धति के माध्यम से किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पूरी की जाएगी और सहजमृत्यु के सभी पशुओं का अभिलेख रखा जाएगा।

भाग 4

कुत्तों के आवास के लिए आवास सुविधा और रीति

10. संरचना और संनिर्माण.—(1) कुत्तों के लिए आवास सुविधाएं संरचनात्मक रूप से ठोस होंगी और पशुओं को सुरक्षित रूप से रखने के लिए अच्छी मरम्मत में रखी जाएंगी और उसमें अन्य पशुओं का प्रवेश निर्बंधित होगा।

(2) आवास सुविधाओं के भीतर के क्षेत्र को स्वच्छ और खलबली से मुक्त रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत उपस्कर, फर्नीचर और भंडारण सामग्री भी हैं, किन्तु उसके अंतर्गत क्षेत्र और समुचित पशुपालन पद्धति के लिए आवश्यक फिक्चर या उपस्कर को साफ करने के लिए वास्तविक रूप से प्रयुक्त और आवश्यक सामग्री हो सकेगी।

(3) आवास सुविधाओं को प्रकृति के अनुसार किसी अन्य कारबार से पृथक् रखा जाएगा।

(4) आवास सुविधा में सभी सतह और अन्य सभी निर्माण ऐसे होंगे, जिनमें वे सहज रूप से साफ और स्वच्छ रहें या जब फटे या मैले होने पर उन्हें हटा दिया गया हो या बदल दिया गया हो।

(5) वहां पर ऐसे काटेदार कोर या नुकीले नोक नहीं होंगे, जो पशुओं को क्षति पहुंचाएं।

(6) अंतरंग आवास सुविधाओं की छतें नमी से अप्रभावित होंगी।

11. भंडारण सुविधाएं.—(1) खाद्य और शय्या की पूर्ति को पशु क्षेत्र से बाहर और ऐसी रीति में भंडारित किया जाएगा, जो पूर्ति को रद्दी से संरक्षित रखे।

(2) पूर्ति को फर्श और दीवार से अलग, किसी पूर्ति को उनके नीचे और आसपास से स्वच्छ रखने के लिए, भंडारित किया जाएगा।

(3) प्रशीतन की अपेक्षा वाले खाद्य का भंडार तदनुसार किया जाना चाहिए और सभी खाद्यों का ऐसी रीति में भंडार किया जाना चाहिए जिससे उसकी पोषक उपयोगिता को संदूषण और क्षय से रोका जा सके।

(4) खाद्य और शय्या की सभी खुली पूर्तियों को कसकर फिट किए गए ढक्कनों वाले रिसाव अभेद्य पात्रों में, जिससे उसको संदूषण और रद्दी से रोका जा सके और केवल ऐसे खाद्य और शय्या को ही पशु क्षेत्रों में रखा जाए, जिसका उसी समय उपयोग किया जाता हो।

12. सफाई.—(1) ऐसी कठोर सतहों की, जिसके संपर्क में कुत्ते आते हैं, दैनिक स्थल सफाई और स्वच्छता की जाएगी।

(2) वहां मल-मूत्र का कोई संचयन नहीं होगा और रेत, बजरी, घास या अन्य समान सामग्री से बनी फर्शों को पर्याप्त बारम्बारता के साथ खुरचा हुआ और स्थल-साफ रखा जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पशु मल-मूत्र के संपर्क में आने से बचने के लिए मुक्त हैं।

13. जल निकास और अपशिष्ट व्ययन.—(1) नियमित अपशिष्ट व्ययन, पशु और खाद्य अपशिष्ट, त्यक्त शय्या, मलबा, कूड़ा, जल, अन्य तरल और अपशिष्टों को हटाने और व्ययन की व्यवस्था की जाएगी।

(2) आवास सुविधाएं ऐसी व्ययन सुविधाओं और जल निकास प्रणाली से सुसज्जित होंगी जो पशु अपशिष्ट और जल के शीघ्र समाप्ति को सुनिश्चित करे और यदि बंद जल निकास प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो वह जाल से सुसज्जित होगी, जो गैस मल के फर्श पर वापसी प्रवाह को रोक दे।

(3) पशु बाड़ों और पार्श्वस्थ क्षेत्रों में जल के स्थायी कीचड़ की जल निकासी की जाएगी और पोछा जाएगा, जिससे पशु शुष्क रह सकें।

(4) आवास सुविधाओं, खाद्य भंडारण और खाद्य निर्मित क्षेत्रों में कचरे के पात्र, रिसाव अभेद्य होंगे और सभी समयों पर कसकर फिट किए हुए ढक्कनों के साथ रखे जाएंगे।

14. जल और विद्युत.—आवास सुविधा में विश्वसनीय और पर्याप्त विद्युत पूर्ति और पशुओं की पेय आवश्यकताओं, सफाई और अन्य पशुपालन को अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त चालू पेयजल होगा।

15. परिवेशी और सुखद तापमान.—(1) पशुओं के लिए अंतरंग आवास सुविधा के भीतर तापमान इस प्रकार परिवेशी और सुखद होगा, जो उसमें रखे गए कुत्तों की नस्ल पर निर्भर है।

(2) तापमान ऐसा होगा जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए व्यवस्थित हो।

16. संवातन.—(1) कुत्तों वाली अंतरंग आवास सुविधाओं में खिड़कियों, द्वारों, हवाकश या वातानुकूलन के साधनों द्वारा पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(2) हवा का फैलाव पंखों, धोकनियों और वातानुकूलन द्वारा किया जाएगा, जिससे कूड़ा-करकट, गंध और नमी संघनन को कम किया जा सके।

17. प्रकाश.—(1) पशुओं के लिए अंतरंग आवास सुविधा, नित्य निरीक्षण और सुविधा की सफाई तथा पशुओं की देखभाल करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रकाशित होंगी।

(2) प्रारंभिक बाड़े इस प्रकार रखे जाएंगे, जिससे पशुओं की अत्यधिक प्रकाश से संरक्षा की जा सके।

18. रसायन.—(1) सामान्य पशुपालन पद्धति, सफाई, विसंक्रामण और इसी प्रकार के लिए प्रयुक्त रसायन, जो पशुओं के विषैले हों, को खाद्य भंडारण या खाद्य निर्मिति क्षेत्रों में भंडारित नहीं किया जाएगा किन्तु उन्हें पशु क्षेत्रों में पार्श्वस्थ कमरों में या सुरक्षित पेटिकाओं में भंडारित किया जा सकेगा।

(2) सभी रसायनों पर स्पष्ट लेबल लगा होगा।

19. ओषधि.—(1) सभी ओषधियों को साफ, धूल निर्बधित पात्रों में ठीक प्रकार से फिट किए गए द्वारों सहित या ठीक प्रकार से बंद किए गए ढक्कनों सहित अन्य उपयुक्त पात्रों में भंडारित किया जाएगा।

(2) सभी ओषधियों पर स्पष्ट चिह्नांकन या लेबल लगा होगा।

(3) विनिर्माता का लेबल, जिसके अंतर्गत समाप्ति की तारीख भी है, को हटाया या विरुपित नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसी ओषधियों को ही, जैसे डुबाने और साफ करने वाली और व्यय, जिन पर ऊपरी उपयोग का चिह्न लगा है, उसी पेटिका में भंडारित किया जा सकेगा किन्तु उन्हें प्रकृति के अनुसार अन्य ओषधियों से पृथक् रखा जाएगा।

20. अग्नि का पता लगाना और अग्निशामक.—सभी अंतरंग आवास सुविधाएं और छतदार आवास सुविधाएं, अंतरंग भागों में समुचित रूप से अनुरक्षित, धूम्र या ताप खोज युक्तियों और अग्निशामकों से सुसज्जित होंगी।

21. बहिरंग आवास सुविधाएं.—(1) कुत्तों के निम्नलिखित प्रवर्गों को तब तक बहिरंग सुविधाओं में नहीं रखा जाएगा, जब तक उस पद्धति को उनकी देखभाल करने वाले पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विनिर्दिष्टतया लिखित में अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो-

(i) ऐसे कुत्ते, जो प्रसंगत क्षेत्र में विद्यमान तापमान के अभ्यस्त नहीं हैं ;

(ii) कुत्ते की ऐसी नस्ल, जो प्रसंगत क्षेत्र में विद्यमान तापमान को सहन नहीं कर सकते, जैसे उच्च तापमान स्थानों में लंबे बालों वाली नस्लें ; और

(iii) बीमारी, अंग शैथिल्य, वृद्ध या अल्पवय पशु।

(2) कुत्तों के लिए बहिरंग सुविधाओं के अंतर्गत छतवाली एक या अधिक संरचनाएं हैं, जैसे एक या अधिक आश्रय, जिन तक प्रत्येक बहिरंग सुविधा प्रत्येक पशु की पहुंच हो और जो संरचना के भीतर प्रत्येक पशु को सामान्य रीति में बैठने, खड़ा होने और लेटने तथा मुक्त रूप से घूमने के लिए पर्याप्त हो और इसके अतिरिक्त सभी पशुओं को एक साथ रखने और उन्हें सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों से संरक्षित रखने के लिए पर्याप्त रूप से वृहत् छाया के एक या अधिक पृथक् बाहरी क्षेत्रों की व्यवस्था की जाएगी।

(3) पशुओं के लिए बहिरंग सुविधाओं के आश्रयों में छत, चार ढाल और फर्श होगी तथा-

(i) पशु को ताप और शीत से पर्याप्त संरक्षण और आश्रय प्रदान किया जाएगा ;

- (ii) पशु को सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों से तथा हवा, वर्षा, बर्फ या अन्य वृष्टिपात से संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- (4) पशुओं के लिए प्रारंभिक बाड़ों में निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा--
- (क) प्रारंभिक बाड़े उपयुक्त सामग्री से संनिर्मित होंगे और संरचनात्मक रूप से ठोस होंगे ;
 - (ख) उन्हें अच्छी मरम्मत में रखा जाएगा ;
 - (ग) उनमें कोई नुकीले या कोर नोक नहीं होंगे, जिससे पशु को क्षति हो सके ;
 - (घ) वे ऐसे होंगे, जो पशु को सुरक्षित रखें और बाड़े में अन्य पशुओं के प्रवेश को रोक ;
 - (ङ) पशु को शुष्क और साफ रहने में समर्थ बनाए ;
 - (च) अत्यधिक ताप और मौसम स्थिति से आश्रय और संरक्षण प्रदान करे, जो पशु के लिए असुविधाजनक या परिसंकटमय हो ;
 - (छ) प्रारंभिक बाड़े में एक ही समय रखे गए सभी पशुओं के आश्रय के लिए पर्याप्त छाया प्रदान करे ;
 - (ज) सभी पशुओं को स्वच्छ खाद्य और जल तक सरल और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करे ;
 - (झ) ऐसी सभी सतह, जिनके संपर्क में पशु आए, सहज रूप से साफ और स्वच्छ हो या फटे या मैले होने पर बदली जाए ;
 - (ञ) उनमें फर्श ऐसी रीति में संनिर्मित हों, जो पशु के पैर और टांग को क्षतिग्रस्त होने से संरक्षण करे ;
 - (ट) उसमें प्रत्येक पशु को सुखद, सामान्य स्थिति में मुक्त रूप से घूमने, खड़ा होने, बैठने, लेटने के लिए तथा सामान्य रीति में चलने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो ;
- (5) प्रारंभिक बाड़े में रखे गए प्रत्येक कुत्ते (दूध छुड़ाई पिल्ले सहित) को फर्श स्थान की न्यूनतम मात्रा दी जाएगी, जिसकी गणना निम्न प्रकार से है-
- (क) बाड़े की लंबाई : कुत्ते की लंबाई से चार गुना, जो उसकी नाक के अग्र बिंदु से उसकी पूंछ के मूल तक मापी जाए ; और
 - (ख) बाड़े की चौड़ाई : कुत्ते की लंबाई से दो गुना, जो उसकी नाक के अग्र बिंदु से उसकी पूंछ के मूल तक मापी जाए।
- (6) पोषणार्थ पिल्लों वाली प्रत्येक कुतिया को अतिरिक्त फर्श स्थान दिया जाएगा, जो उसकी नस्ल तथा व्यवहार लक्षण पर आधारित और परिचर्या करने वाले पशु चिकित्सक द्वारा यथा अवधारित साधारणतया स्वीकृत पशुपालन पद्धतियों के अनुसार हो।
- (7) आरंभिक बाड़े की आंतरिक ऊंचाई बाड़े में सबसे लंबे कुत्ते के सिर से कम से कम छह इंच होगी, जब वह सामान्य स्थिति में खड़ा हो।
- (8) पशुओं को अल्प समयावधि के लिए रखने के लिए प्रयुक्त पिंजरे या क्रेट पशु को सामान्य रीति में खड़े होने, बैठने, लेटने और घूमने के लिए पर्याप्त रूप से बृहत् होंगे।
- (9) कुत्तों को रात्रि के सिवाय जब देखभाल करने वाला निवृत्त होता है या जब चिकित्सा कारणों के लिए आवश्यक हो, पिंजरे में नहीं रखा जाएगा।
- 22. श्वान को खूटे से बांधना.—**(1) श्वान केवल बाह्य आवास सुविधा में खूटे से बांधे जा सकते हैं यदि वे इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और केवल तब जब खूटे इस पैरा की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।
- (2) खूटे श्वान के शरणगृह ढांचे के सामने या ढांचे सामने या शरणगृह के सामने खंभे से लगे होने चाहिए और श्वान की लंबाई जो ना के सिरे से इसकी पूंछ के आधार तक नापी जाएगी, से कम से कम तीन गुना होने चाहिए।
- (3) खूटे से श्वान की शरणगृह और खाने और जल पात्र तक आसान पहुंच बनी रहनी चाहिए।

(4) खूँटा श्वान के आकार के लिए प्रयुक्त सामान्य प्रकार और लंबाई का होगा तथा उचित रूप से लगे पट्टे द्वारा श्वान बंधा होना चाहिए जो श्वान को अपघात या उपहृति कारित करे।

(5) पट्टा तार, सपाट चेन या पैने सिरे वाली चेन या जंग लगी या बिना समान जोड़े वाली जैसी सामग्री बनी होना प्रतिषिद्ध है।

(6) खूँटे इस प्रकार लगे होने चाहिए कि श्वान बाह्य आवास सुविधा में अन्य वस्तुओं या अन्य श्वानों के शारीरिक संपर्क में आकर खतरे में न पड़ें और खूँटे से पूरी दूरी तक घूम सकें।

(7) परिमिति दीवाल इतनी ऊँचाई की होनी चाहिए कि अवांछनीय बाहरी पशु श्वान रखने के क्षेत्र जहाँ श्वान खूँटे पर हैं, से बाहर रहें।

(8) दीवार ऐसी बनाई जाए कि यह समान या बड़े आकार के अन्य श्वान के अंदर या नीचे से बाहर जाने से श्वानों को बचाए।

23. संगति.—(1) प्रेक्षण द्वारा यथावधारित उसी प्राथमिक बाड़े में रखे गए सभी कुत्ते संगत होंगे।

(2) उसी प्राथमिक बाड़े में 12 से अनधिक व्यस्क कुत्ते नहीं रखे जाएंगे।

(3) प्रजनन के लिए के सिवाए, उत्तेजित मादा कुतिया लैंगिक रूप से वयस्क नर कुत्तों के साथ उसी प्राथमिक बाड़े में नहीं रखे जाएंगे।

(4) प्रजनन क्लॉनीज़ में जब रखी जाती है, के सिवाय, झोल सहित मादा कुतिया अन्य व्यस्क कुत्तों के साथ उसी प्राथमिक बाड़े में नहीं रखी जाएगी; चार मास से कम आयु के पिल्लों को, उनकी मादा या पोषक मादा से अन्यथा उसी बाड़े में वयस्क कुत्तों के साथ नहीं रखा जाएगा।

(5) दूषित और आक्रामक प्रकृति के कुत्तों को अन्य कुत्तों से अलग रखा जाएगा।

(6) ऐसे कुत्ते जिनको संक्रामक रोग हैं या होने की संभावना है, स्वस्थ पशुओं से अलग रखे जाएंगे।

(7) जब पशुओं का समग्र समूह या कक्ष किसी संक्रामक या सांसर्गिक कारक के संपर्क में आते हैं तो समूह को निदान, उपचार और नियंत्रण के दौरान उसी दशा में रखा जाएगा।

24. कुत्तों के लिए कसरत और सामाजीकरण.—(1) वाणिज्यिक कुत्ताघर, वाणिज्यिक प्रजनक, व्यापारी, अन्य व्यौहारी और प्रदर्शक, कुत्तों को कसरत कराने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु किसी समुचित योजना का विकास, प्रलेखन और अनुसरण करेंगे।

(2) योजना को प्रजनक और देखरेख करने वाले पशु-चिकित्सक द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा, और इसके अंतर्गत कसरत के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अनुसरित की जाने वाली लिखित मानक प्रक्रियाएं हैं।

(3) राज्य बोर्ड को अनुरोध पर, योजना भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) योजना, कम से कम निम्नलिखित में से प्रत्येक का अनुपालन करेगी –

(क) झोल सहित मादा कुतिया के सिवाय, किसी पशु आश्रय, बोर्डिंग कुत्ता घर, वाणिज्यिक कुत्ता घर, वाणिज्यिक प्रजनक, व्यापारी, अन्य व्यौहारी, प्रदर्शक या अन्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आश्रित, रखे गए या अनुरक्षित 12 सप्ताह से अधिक की उम्र के कुत्तों नियमित रूप से कसरत के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा; और

(ख) कसरत के लिए अवसर की बारंबारता, पद्धति और अवधि परामर्शी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(5) प्रजनक, अपनी योजना को विकसित करने में, मनुष्यों के साथ सकारात्मक शारीरिक संपर्क, जो खेल या समान गतिविधियों के माध्यम से कसरत को प्रोत्साहित करे, प्रदान करने पर विचार करेगा और यदि कोई उत्तर अन्य कुत्ते के साथ

संवेदी संपर्क के बिना किसी सुविधा में आश्रित, रखा या अनुरक्षित किया जाता है, तो उसे कम से कम दिन में एक बार मनुष्यों के साथ सकारात्मक शारीरिक संपर्क प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

(6) कसरत के लिए अवसर कई प्रकार से प्रदान किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत –

- (क) पिंजरों, बाड़ों या घेरों में सामूहिक आवास, जो यदि इस नियम की न्यूनतम फर्श स्थान अपेक्षाओं के अधीन पृथक्कृत: रखे जाते हैं तो प्रत्येक कुत्ते के लिए अपेक्षित स्थान के कम से कम एक सौ प्रतिशत प्रदान करते हैं;
- (ख) देखभाल करने वाले पशु चिकित्सक द्वारा विहित बारंबारता और अवधि पर घेरे या खुले क्षेत्र के लिए पहुंच की व्यवस्था करना;
- (ग) या तो किसी बाड़ लगे क्षेत्र में या अन्य किनारे पर किसी व्यक्ति के साथ पट्टे पर पर्याप्त कसरत;
- (घ) प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट दो बार कसरत करना;
- (ङ) वयस्कों के लिए प्रतिदिन कम से कम तीन घंटे और चार मास से कम उम्र के पिल्लों के लिए प्रतिदिन 5 घंटों के बराबर उपयुक्त अंतराल पर लोगों के साथ सामाजीकरण करना; और
- (च) अन्य समान गतिविधियां

(7) प्रत्येक स्थापन केयरटेकरों, जो इन कार्यों को पूरा करता हो और समय, जिस पर प्रत्येक ऐसा कर्ता हो, के नाम प्रलेखित करते हुए जांच सूची रखेगा तथा जांच सूची निरीक्षणों के दौरान या जब मांगी जाए, बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी।

(8) प्रत्येक स्थापन सुनिश्चित करेगा कि बलपूर्वक कसरत पद्धतियां या युक्तियां जैसे तैरना, ट्रेड मिल्स या पान गोष्ठी – प्रकार युक्तियां का उपयोग किया जाए:

परंतु यदि पशु चिकित्सा व्यवसायी की राय में कतिपय कुत्तों के लिए उनके स्वास्थ्य, स्थिति या उनकी भलाई के कारण कसरत करना अनुचित है तो प्रजनक को केवल उन विशिष्ट कुत्तों के लिए इस पैरे में अपेक्षाओं को पूरा करने से छूट दी जा सकेगी।

25. भोजन.—(1) पशुओं को विहित मानकों के अनुसार भोजन कराया जाएगा।

(2) भोजन, पशु की सामान्य स्थिति और भार को बनाए रखने के लिए असंदूषित, स्वास्थ्यकर, स्वाद और पर्याप्त मात्रा और पोष्टिक गुणों वाला होगा।

(3) डाइट प्रत्येक पशु की आयु और स्थिति के लिए समुचित होगी।

(4) पशुओं के उपयोग में लाए जाने वाले भोजन पात्र सभी पशुओं की सुगम पहुंच के भीतर होंगे और ऐसे अवस्थित किए जाएंगे ताकि मल मूत्र द्वारा न्यूनतम संदूषण को वर्षा से संरक्षित रहे। भोजन पात्र टिकाऊ सामग्री, जिसे आसानी से साफ और स्वच्छ किया जा सके, का बनाया जाएगा और साफ रखा जाएगा।

26. सफाई, स्वच्छता और गृह व्यवस्था.—(1) मल और भोजन अपशिष्ट के अत्यधिक संचयन का निवारण करने के लिए, प्राथमिक बाड़ों में रखे गए पशुओं को गंदगी से निवारित करने के लिए रोग संकट, कीट और दुर्गंध कम करने के लिए प्राथमिक बाड़ों से मलमूत्र और भोजन अपशिष्ट प्रतिदिन तथा प्राथमिक बाड़ों के नीचे से जब जब आवश्यक हो, हटाए जाएंगे।

(2) जब प्राथमिक बाड़े को साफ करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, चाहे होजिंग, फलशिंग या अन्य पद्धतियों द्वारा, तो जब तक बाड़ा पर्याप्त रूप से बड़ा न हो ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पशुओं को इस प्रक्रिया में नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, गीला या परेशान नहीं किया जाता, पशुओं को हटाया जाएगा।

(3) प्राथमिक बाड़े को समीपवर्ती क्षेत्रों से ठहरा हुआ जल हटाया जाएगा।

(4) अन्य प्राथमिक बाड़ों में पशु सफाई के दौरान जल और अन्य अपशिष्टों से संदूषित होने से संरक्षित किए जाएंगे।

(5) प्राथमिक बाड़ों के सख्त तल और भोजन और जल पात्र समुचित प्रक्षालक घोलों के साथ धोकर और रोगाणुनाशकों के उपयोग से साफ और स्वच्छ किए जाएंगे।

(6) ऐसी सामग्री का उपयोग करने वाले बाड़े, घेरे और बाह्य आवास क्षेत्र जो रोड़ी, रेत, घास, मिट्टी या अवशोषित क्यारी जैसे पूर्ववर्ती कथित पद्धती का उपयोग करते हुए साफ और स्वच्छ नहीं किए जा सकते। दुर्गंध, रोग संकट और कीटों को निवारित करने के लिए यथाआवश्यक संदूषित सामग्री को हटाते हुए साफ और स्वच्छ किए जाएंगे।

27. परिसर के लिए गृह व्यवस्था.—किसी स्थापन में जहां आवासीय सुविधा अवस्थित है, जिसके अंतर्गत भवन और आसपास के मैदान है, साफ और अच्छी मरम्मत में रखे जाएंगे तथा कूड़ा कचरा, अपशिष्ट उत्पादों और फेंकी हुई वस्तुओं और खरपतवारों, घास और झाड़ियों के संचयन से मुक्त रखे जाएंगे और इस प्रकार नियंत्रित किए जाएंगे ताकि सुविधा की सफाई, नियंत्रण और पिस्सू और किलनियों से निवारित करना सुकर बनाया जा सके तथा पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण का संरक्षण किया जा सके तथा देखभाल के समय नियमित डी-टिकिंग करवाई जाएगी।

28. कुत्तों का वार्षिक टीकाकरण.—प्रत्येक प्रजनन स्थापन में कुत्तों का रेबीज़ (और अधिमानतः केनाइन डिस्टेंपर, पैरवो-वायरस, लैप्टोस्प्राइरोसिस और वायरल हैपाटाइटिस के विरुद्ध) के विरुद्ध प्रतिवर्ष टीकाकरण किया जाएगा।

29. कर्मचारीगण.—(1) प्रत्येक प्रजनक के पास इन नियमों द्वारा अपेक्षित पशुपालन व्यवहार और देखभाल के स्तर को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारीगण होंगे।

(2) कर्मचारीगण जो पशुओं के लिए पशुपालन और देखभाल या नियंत्रण की व्यवस्था करते हैं, उचित प्रकार से प्रशिक्षित होंगे तथा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा जिसके पास ऐसा करने के लिए पशुपालन और कुत्तों की देखभाल में पर्याप्त ज्ञान, पृष्ठभूमि और अनुभव हो।

30. कुत्तों की पहचान.—प्रत्येक प्रजनक सुनिश्चित करेगा कि (क) प्रत्येक कुत्ता, कुत्ते के कालर में चिपकाए सरकारी टैग से पहचाना जाता है;

(ख) सभी प्रजनन पशुओं और तीन मास से अधिक के पिल्लों की पहचान माइक्रो चिपिंग के माध्यम से किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी।

(ग) टैग क्रमानुसार संख्यांकित और अभिलेख के अनुसार संदर्भित किए जाते हैं, जो कुत्ते के स्रोत, सभी चिकित्सा उपचार या प्रक्रियाएं जिनसे वे गुजरे हों और पशु के स्वभाव पूरी तरह और सही प्रकार से पहचान करते हों; और

(घ) उसी प्रयोजन के लिए माइक्रो चिप्स को क्रमसंख्यांक आबंटित की जाती हैं और टैग संख्या और माइक्रो चिप संख्या के अभिलेख का उपयोग कुत्ते की पहचान, प्रत्येक ऐसे कुत्ते के साथ जो स्थापन से विक्रीत किया जाता है या अन्यथा बाहर ले जाया जाता है, के लिए किया जाता है।

[फा. सं. 1/1/2010-एडब्लूडी (पार्ट)]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2017.

G.S.R. 19(E).—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred under section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (*39 of 1960*), is hereby published, as required under sub-section (1) of section 38 of the said Act, for the information of public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the said draft rules may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Deputy Secretary (Animal Welfare) to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Paryavaran Bhawan, New Delhi.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (*59 of 1960*);

(b) “Animal Welfare Organisation” means a welfare organisation for animals recognised by the Board, and includes a Society for Prevention of Cruelty to Animals established in any district under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 made under the Act;

(c) “Board” means the Animal Welfare Board of India, established under section 4 of the Act and reconstituted from time to time under section 5A;

(d) “breeder” means an individual or group of persons who own dogs of specific breeds for breeding and sale of dogs and pups, and includes boarding kennel operator, intermediate handler and trader;

(e) “boarding kennel operator” includes an individual or group of persons that keep pet dogs and pups for temporary housing in kennels or any other establishments;

(f) “carrier” means the operator of any airline, aircraft, railroad, motor carrier, shipping line or other enterprise which is engaged in the business of transporting animals on hire;

(g) “certificate of registration” means a certificate of registration issued under these rules;

(h) “dog” includes a pup;

(i) “intermediate handler” means any person who receives interim custody of animals during the course of their sale or purchase;

(j) “inspector” means a person appointed by the local authority or the State Animal Welfare Board, and includes a representative of an Animal Welfare Organisation authorised in writing by the State Board;

Provided that any person who is or has been a pet shop owner or breeder, or is related to a pet shop owner or breeder, shall not be appointed or authorised as an inspector under these rules;

(k) “local authority” means a municipal committee, district board or other authority for the time being invested by law with the control and administration of any matter within a specified local area;

(l) “State Board” means a State Animal Welfare Board constituted in a State by the State Government;

(m) “trader” includes an individual or group of persons who sells dogs and pups acquired from any breeder or pet shop, or from his or their own breeding facility, or imported for sale, or acquired in any other manner;

(n) “pet shop” means a shop, place or premises, including any shop, place or premises in a weekly or other market, where pet animals are sold or housed, kept or exhibited for sale, or where any retail or whole-sale business involving the selling or trading of pet animals are carried out;

(o) “schedule” means a schedule annexed to these rules;

(p) “veterinary practitioner” means a veterinary practitioner registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

(2) All other terms and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Prohibition of breeding of dogs without registration.—(1) No breeder shall carry on or continue any breeding activity or own or house dogs for breeding and sale of dogs and pups, unless the breeder has obtained a certificate of registration in respect of the establishment being used or intended to be used by him for breeding or housing the dogs for breeding, from the Board in accordance with these rules.

(2) Every breeder shall prominently display the certificate of registration in the establishment.

(3) Every breeder shall keep the establishment used by him for breeding or for housing the dogs to be bred or sold, open for inspection by the State Board or the Board.

4. Registration of breeder and establishment.—(1) A person shall not be eligible for registration as breeder under these rules, unless—

(a) in the case of an individual, he has attained the age of majority and is of sound mind and is not disqualified from contracting under any other law for the time being in force; and

(b) in any other case, the person is a corporation, company or other association of persons duly registered in accordance with any law for the time being in force.

(2) An application for registration of breeder in respect of an establishment used or intended to be used by him for breeding or housing the dogs for breeding, shall be made to the State Board in the Form appended to the First Schedule providing all information required therein and accompanied with a non-refundable fee of **five thousand rupees**.

(3) A breeder shall be required to make separate applications for every establishment being used or intended to be used for breeding or housing dogs for breeding.

(4) The State Board shall, on receipt of an application for registration under sub-rule (2), cause the establishment of the breeder to be inspected by a team comprising of an authorised representative of the State Board and a veterinary practitioner.

(5) The team referred to in sub-rule (4) shall after making inspection submit to the State Board a report signed by all the members of the team.

(6) The State Board, after considering the report of the team submitted under sub-rule (5) and on being satisfied that breeder and the establishment complies with the requirements specified under these rules, register the breeder in respect of that establishment.

(7) The State Board shall not register the breeder in respect of an establishment, if—

(a) the information submitted by the breeder has been found to be false or the applicant has made material and deliberate misstatements in the application or provided falsified or fabricated records to the State Board; or

(b) the breeder has, at any stage prior to submission of his application for registration, been convicted of any offence under the Act, or the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) or for any offence relating to animals under any other law for the time being in force; or

(c) the breeder has refused to allow the inspection team free and unimpeded access to the establishment; or

(d) the breeder does not meet the requirements laid down under rule 6.

(8) Where the State Board does register the breeder in respect of an establishment, the State Board shall inform the breeder in writing the reasons thereof.

(9) A certificate of registration issued by the State Board shall be valid for a period of two years, and may be renewed upon an application being made to the State Board together with a fee of five thousand rupees.

(10) A certificate of registration issued under these rules shall be non-transferable.

5. Renewal of registration.—(1) An application for renewal of registration shall be made, at least thirty days prior to the expiry of the registration, to the State Board in the Form appended to the First Schedule and the provisions of rule 4 shall *mutatis mutandi* apply.

(2) The State Board shall not renew of registration of a breeder in respect of an establishment, unless the State Board, after considering the report of the team is satisfied that the breeder and the establishment complies with the requirements specified in rules 6 and the Second Schedule.

6. Requirements to be met by breeders and establishments used for breeding or housing dogs for breeding.—Every breeder shall comply with the standards and requirement set out in the Second Schedule.

7. Inspection of establishment.—(1) The State Board may, either upon receipt of a complaint or for any other reason, cause any establishment of a breeder to be inspected by an inspector authorised in writing by it in this behalf.

(2) The inspector so authorised under sub-rule (1) shall, on producing his authority, have power to—

(a) enter into the establishment at any reasonable time and access to all areas within the establishment and all animals, and records, to ascertain whether the requirements of these rules are being complied with;

(b) take pictures, record videos, and make copies of the records:

(3) An establishment of a breeder registered under these rules shall be inspected at least once each year.

(4) The inspector shall submit to the State Board a report in writing of the inspection.

(5) If the State Board, after considering the report referred to in sub-rule (4) is of the opinion that any requirements of these rules are contravened by the breeder, it may, after giving a copy of the report to the breeder an opportunity to show cause, revoke the registration of the breeder in respect of that establishment and communicate to him the reasons thereof in writing.

8. Conditions for sale.—(1) Every breeder shall ensure that—

(a) pups less than eight weeks in age are not sold;

(b) dogs over 6 months in age are not sold without first being sterilized, unless they are being sold to another licensed breeder;

(c) dogs and pups are not sold for use in experiments, unless the purchaser is a breeder registered with the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals constituted under section 15 of the Act:

Provided that the sale of pups by the purchaser shall only be made to a facility registered with the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals;

(d) only dogs in good health, that have been provided the medical inoculations, are sold;

(e) each pup sold is micro-chipped and complete record of treatment and vaccination is maintained;

(f) pups are not displayed in public places for the purpose of immediate sale; and

(g) receipt for sale is provided to each purchaser and copy thereof is retained with the micro-chip number of the pup sold and name, address and phone number of the purchaser.

(2) A breeder shall not breed a litter unless he has pre-screened candidates on a waiting list for the puppies.

(3) The breeder shall furnish to the buyer in writing, details of feeding, dates of inoculations and de-worming of the puppy and the name and address of the veterinary practitioner who was attending to it.

(4) Every breeder shall screen prospective buyers to ascertain their potential to take proper care of the breed, especially if it is a large one, and attend to its grooming, socialising, spatial and veterinary needs, and bear the expense for its upkeep and maintenance.

(5) No breeder shall sell a dog to a pet shop operating without licence.

(6) The breeder shall keep track of all pups produced and sold and it shall be the responsibility of the breeder to obtain information regarding the progress and state of health of all dogs sold by him, at least once each year.

(7) Every breeder shall rehabilitate a pup not sold within a period of six months, through an animal welfare organisation recognised by the Board or the State Board.

9. Records.—(1) Every breeder shall maintain records of all animals housed in the establishment, including dogs for breeding and dogs for sale and be kept at the establishment for inspection.

(2) Every breeder shall maintain records of individual dogs, both male and female, including the following information, namely:—

- (a) breed;
- (b) name and number (or litter number);
- (c) micro-chip number;
- (d) sex, colour and markings;
- (e) date of birth;
- (f) names and microchip numbers of sire and dam;
- (g) name of breeder from whom acquired (where applicable);
- (h) name and address of person from whom directly acquired (where applicable);
- (i) date of acquisition;
- (j) date and duration of lease, if any;
- (k) date and place of mating;
- (l) names of persons handling the mating;
- (m) name and number of dog, including micro-chip number, with which mated;
- (n) name and address of owner (where applicable);
- (o) date of whelping;
- (p) number of pups whelped, by sex colour and markings;
- (q) litter registration number if any;
- (r) date of sale, death or rehabilitation of each pup so described;
- (s) name and address of purchaser;
- (t) cause of death as determined by a veterinary doctor of each dog that dies in the establishment;
and
- (u) any other information that is deemed relevant by the Board or the State Board.

(3) Every breeder shall use clear and concise contracts to document sales, lease arrangements, spaying or neutering contracts, and any other contract pertaining to the dogs at their establishments.

(4) Every breeder shall maintain health and medical records of each dog, whether male or female, and of every pup in every litter and a copy of the records of any dog or pup that is sold shall be provided to the purchaser.

(5) All records maintained by the breeder under these rules shall be kept at least for a period of eight years, unless the State Board directs in writing that the records be maintained for a longer period for the purpose of investigation.

10. Appeal.—(1) Any breeder aggrieved by the decision of the State Board may, within thirty days of receipt of the decision, prefer an appeal to the Local Governing Bodies i.e. District Magistrate or District Collector, as the case may be.

(2) Local Governing Bodies i.e. District Magistrate or District Collector, as the case may be, shall after giving notice to the breeder and the State Board, and giving an opportunity of hearing to the parties, either reject or allow the appeal, for the reasons to be recorded in writing and communicated to the breeder and the State Board.

11. Reports by breeder.—Every breeder registered under these rules shall submit,—

(a) at the end of each year, a report to the State Board, consisting of the information as to the total number of animals sold, traded, bartered, brokered, given away, boarded or exhibited during the previous year;

(b) provide to the State Board, such other information as may be required by the State Board, as the case may be, from time to time; and

(c) the State Board shall send a consolidated report at the end of each year to the Board consisting of the information as to the total number of animals sold, traded, bartered, brokered, given away, boarded or exhibited during the previous year and any such other information as may be required by the Board, as the case may be, from time to time.

12. Effect of death of breeder registered under these rules.—In the case a breeder registered under these rules, dies before the expiry of the period of registration, the registration in respect of the establishment shall be deemed to have been granted to his legal heirs in respect of that establishment and shall remain in force until the end of a period of three months from the date of death of the breeder and thereafter a fresh application for registration of the breeder in respect of that establishment shall be made in accordance with these rules for continuing the establishment.

13. No licence without registration.—No establishment being used or intended to be used for breeding or housing dogs for breeding shall be granted any licence by the local authority, unless the breeder has obtained a certificate of registration from the State Board in accordance with these rules.

THE FIRST SCHEDULE

[See rules 4(2) and 5(1)]

FORM

APPLICATION FOR REGISTRATION OF BREEDER IN RESPECT OF AN ESTABLISHMENT

To

The State Animal Welfare Board

----- (name of the state)

Subject: Application for registration of breeder in respect of an establishment

Sir,

I/We ----- r/o----- with office address -----
-----, do hereby apply for a registration as breeder in respect
of the establishment ----- (details of establishment) in accordance with the
particulars set out below:

- (1) Name and address of the applicant (breeder):
- (2) Name and address of the establishment:

- (3) Telephone number:
- (4) Details of accommodation and infrastructure available at proposed establishment:
- (5) Working hours and rest day, i.e. day on which establishment shall remain closed:
- (6) Ventilation arrangement:
- (7) Lighting arrangement:
- (8) Heating or cooling arrangement, and manner in which comfortable temperature will be maintained for all pet animals:
- (9) Arrangements for food storage:
- (10) Cleanliness, how proposed to be maintained, and arrangements for removal of animal excreta and waste:
- (11) Arrangement for disposal of animals that die:
- (12) Arrangement for medical and veterinary support:
- (13) Details of dogs proposed to be bred in the establishment:
 - (a) Breeds and number of dogs of each breed.
 - (b) Age of each of dog.
 - (c) Accommodation and number and size of cages and enclosures.
- (14) Qualification and experience of the application (breeder) in respect of breeding activities:
- (15) Details of cheque or demand draft number for payment of fee:

ADDITIONAL DETAILS IN CASE OF RENEWAL OF REGISTRATION

- (16) Details of dogs acquired and mated:

Sl. No.	Dog's micro-chip number	Date of acquisition	Date of mating	Mated with (micro-chip number of mate)	Pups born (micro-chip numbers)

- (17) Number of dogs and pups died with reasons of death and micro-chip number:

- (18) Details of dogs/pups sold:

Sl. No.	Dog/pup sold (micro-chip number)	Age of dog/pup	Date of sale	Sale price	Name, address and telephone number of purchaser

- (19) Number of pups unsold and manner of their rehabilitation:

I/We do hereby declare that the information provided by us is accurate and true.

Place:

Signature of Applicant

Date:

THE SECOND SCHEDULE*[See rules 5(2) and 6]***PART I****FACILITIES TO BE PROVIDED BY BREEDER IN AN ESTABLISHMENT**

1. Suitable kennels or accommodation.—The dogs shall at all times be kept in kennels or accommodation suitable in all respects, in terms of construction, size, number of dogs, exercising facilities, proper temperature, lighting, ventilation and cleanliness.

2. Adequate housing.—(1) Adequate housing with the provision of a sanitary facility, protection from the extremes of weather conditions, proper ventilation and appropriate space shall be provided.

(2) All housing shall be made of impervious materials that can be sanitised and wood shall not be allowed for this purpose.

3. Indoor housing facility.—The indoor housing facility at the establishment with environmental controls, housing or intended to house dogs and meeting the following requirements shall be provided, namely:—

(i) it may consist of runs or pens totally enclosed in a barn or building, or of connecting inside or outside runs or pens within a totally enclosed building;

(ii) it shall be capable of controlling the temperature within the building or structure within the limits set forth for that species and age of animal, of maintaining humidity levels, and of rapidly eliminating odors from within the building;

(iii) it shall have an impervious floor. Impervious surface means a surface that does not permit the absorption of fluids;

(iv) it shall be an enclosure created by the continuous connection of a roof, floor and walls; and

(v) it shall have at least one door for entry and exit that can be opened and closed and any windows or openings which provide natural light shall be covered with a transparent material such as glass or hard plastic.

4. Care and upkeep of dogs.—The dogs shall be supplied with—

(a) adequate quantity of wholesome food at suitable intervals of not more than eight hours, and suitable for that species and age and enough to maintain a reasonable level of nutrition in each animal and served in a safe receptacle, dish or container;

(b) adequate supply of fresh, clean drinking water in a safe receptacle, dish or container and available at all times; and

(c) a fenced area for adequate exercise or provision for exercising the dog on a leash exists.

PART II**GENERAL REQUIREMENTS TO BE ADHERED TO BY BREEDERS**

5. Breeding requirements.—(1) The breeder shall be knowledgeable about reproduction, nutrition, wellness and care, early behavioral development, and breeding ethics.

(2) Only normal, healthy, mature female dogs that have reached their eighteenth month shall be bred and shall be certified as healthy by a veterinary practitioner at least ten days prior to their being bred.

(3) No female dog shall be exploited to produce litters in two consecutive breeding seasons.

(4) Female dogs shall not be used such that they give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last give birth to puppies.

(5) Only one litter shall be produced in one year.

(6) No female dog shall be exploited to give birth to more than five litters of puppies during her lifespan.

(7) No male dog shall be used for breeding unless he is a healthy, mature dog, and only after he has reached his eighteenth month and shall be certified as healthy by a veterinary practitioner at least ten days prior to his being mated.

6. Common breeding techniques.—(1) Breeders are known to utilise following four common breeding techniques, namely:—

- (i) out breeding;
- (ii) line breeding;
- (iii) in breeding; and
- (iv) incest breeding.

(2) Notwithstanding anything in sub-paragraph (1), the following two breeding techniques are allowed and accepted under these rules, namely:—

- (i) out breeding— the mating of dogs, which are not at all related to one another; and
- (ii) line breeding— mating between dogs that are marginally related to each other and in this case dogs are chosen for their special attributes to obtain certain types.

(3) The following two mating techniques are not allowed and prohibited under these rules—

- (i) in breeding— mating between dogs that are related. That means that at least one ancestor of either is present on the side of both sire and dam. In breeding is breeding between relatives of the 2nd to 4th grade in straight or side line within the first four generations e.g. uncle to niece, nephew to aunt, cousin to cousin, grandparents to grandchildren;
- (ii) incest breeding— mating between parents and children or between brother and sister, i.e. 1st grade relatives. Incest breeding as well as continued inbreeding and line breeding is risky, since it increases the danger of hereditary diseases.

(4) Female dogs shall not be mated after the age of eight years.

(5) Every breeder shall furnish the proof of age of their breeding female dogs certified by a veterinary practitioner.

(6) Every breeder shall keep a full record of the litter that the male dog or female dog has previously produced and other relevant details of the litter.

(7) Every breeding female dog shall be up-to-date with their vaccination boosters and de-worming prior to mating.

(8) There shall be no tail docking, ear cropping or any other kind of mutilation of the puppy and any change of appearance by artificial means is strictly forbidden.

PART III

HEALTH RELATED REQUIREMENTS

7. Health related requirements.—Every dog shall be kept in a clean, healthy and safe environment and be provided with all socialisation opportunities, vaccinations, and de-worming necessary to provide maximum mental and physical well-being.

8. Veterinary care.—(1) Every breeder shall have the services of a consultant veterinary practitioner available to attend to emergency medical requirements and records of his visits shall be maintained in writing.

(2) The consultant veterinary practitioner shall visit the establishment periodically, at regular intervals and medical examination of each dog at the establishment shall be conducted at least once every month and a record of the same shall be maintained by the breeder.

(3) Individual health records shall be maintained of all animals above the age of eight weeks, or that have been weaned, or that have been treated with a medical procedure, whichever occurs first.

(4) Litter health records may be kept on litters when litter-mates are treated with the same medication or procedure and health records (or a copy) shall accompany all animals upon transfer of ownership.

(5) Every breeder shall ensure that daily observation of all dogs to assess their health and well-being is performed by a veterinary practitioner or by a para vet if a mechanism of direct and frequent communication is established so that timely and accurate information on problems of animal health, behavior and well-being is conveyed to the consultant veterinary practitioner.

(6) Adequate training and guidance to personnel involved in the care of animals, including daily observation of animals, is required and the breeder shall employ only such persons that can perform at the level required by these rules.

(7) If the veterinary practitioner finds, either during the course of a visit to the establishment, or upon his attention being invited to the same by the State Board, that an animal or group of animals from a breeding kennel are suffering from contagious, communicable or infectious disease or exposure to any disease, a quarantine to that establishment may be issued by the veterinary practitioner until the animals are—

- (i) recovered and no longer capable of transmitting the disease; or
- (ii) isolated; or
- (iii) tested, vaccinated or otherwise treated; or
- (iv) humanely euthanised by a veterinary practitioner and properly disposed off.

(8) A quarantine issued by the veterinary practitioner shall remain in effect until released in writing by the veterinarian and the information regarding such a quarantine having been issued shall be provided by the veterinary practitioner to the Animal Husbandry department of the State Government and the State Board, in writing.

(9) All puppies shall be vaccinated which can start at the age of seven-eight weeks, and are usually completed at the age of eighteen weeks.

(10) The dogs shall have been tested for genetic defects, including hip dysplasia, progressive retinal atrophy, night blindness, hypothyroidism, entropion, ectropion, overshot, undershot jaw (when incisors do not touch or mesh), wry mouth, two or more missing teeth, unilateral cryptorchid or full cryptorchid males.

9. Euthanasia.— All euthanasia of mortally wounded or injured animals or incurably sick or terminally ill animals shall be accomplished by a veterinary practitioner in a manner and through a method approved by the Veterinary Council of India and the records shall be maintained of all animals euthanised.

PART IV

HOUSING FACILITIES AND MANNER OF HOUSING DOGS

10. Structure and construction.—(1) Housing facilities for dogs shall be structurally sound, and be kept in good repair, contain the animals securely and restrict other animals from entering.

(2) Areas inside of housing facilities shall be kept neat and free of clutter, including equipment, furniture and stored material, but may contain materials actually used and necessary for cleaning the area, and fixtures or equipment necessary for proper husbandry practices.

(3) Housing facilities shall be physically separated from any other business.

(4) All surfaces in housing facilities, and all other constructions shall be such as allow them to be readily cleaned and sanitised, or removed or replaced when worn or soiled.

(5) There shall be no jagged edges or sharp points that may injure the animals.

(6) The ceilings of indoor housing facilities shall be impervious to moisture.

11. Storage facilities.—(1) Supplies of food and bedding shall be stored outside the animal area and in a manner that protects the supplies from spoilage.

(2) The supplies shall be stored off the floor and away from the walls, to allow cleaning underneath and around any supplies.

(3) Foods requiring refrigeration must be stored accordingly, and all food be stored in a manner that prevents contamination and deterioration of its nutritive value.

(4) All open supplies of food and bedding must be kept in leak-proof containers with tightly fitting lids to prevent contamination and spoilage and only food and bedding that is currently being used may be kept in the animal areas.

12. Cleaning.—(1) Hard surfaces with which the dogs come in contact shall be spot-cleaned daily and sanitised.

(2) There shall be no accumulation of excreta, and floors made of sand, gravel, grass or other similar material shall be raked or spot-cleaned with sufficient frequency to ensure all animals the freedom to avoid contact with excreta.

13. Drainage and waste disposal.—(1) Regular waste disposal, removal and disposal of animal and food waste, discarded bedding, debris, garbage, water, other fluids and wastes, shall be provided for.

(2) Housing facilities shall be equipped with disposal facilities and drainage systems that ensure rapid elimination of animal waste and water and if closed drainage systems are used they shall be equipped with traps that prevent the backflow of gases sewage onto the floor.

(3) Standing puddles of water in animal enclosures and adjacent areas shall be drained or mopped up so that the animals stay dry.

(4) Trash containers in housing facilities, food storage and food preparation areas shall be leak-proof and possessed of tightly fitted lids at all times.

14. Water and electricity.—The housing facility shall have reliable and adequate electricity supply, and adequate potable running water for the animals' drinking needs, for cleaning, and for carrying out other husbandry requirements.

15. Ambient and comfortable temperature.—(1) The temperature within indoor housing facilities for animals shall be ambient and comfortable, depending on the breeds of dogs that are housed inside.

(2) The temperature shall be such as provides for their health and well-being.

16. Ventilation.—(1) Adequate ventilation at indoor housing facilities containing dogs shall be ensured by means of windows, doors, vents or air conditioning.

(2) The air shall be circulated by fans, blowers or air conditioning so as to minimize drafts, odors and moisture condensation.

17. Lighting.—(1) Indoor housing facilities for animals shall be well-lit enough to permit routine inspection, cleaning of the facility and observation of the animals.

(2) Primary enclosures shall be placed so as to protect the animals from excessive light.

18. Chemicals.—(1) Chemicals used for normal husbandry practices, cleaning, disinfecting, and the like, that may be toxic to the animals shall not be stored in food storage or food preparation areas, but may be stored in adjacent rooms or in secure cabinets in the animal areas.

(2) All chemicals shall be clearly labeled.

19. Medicine.—(1) All medication shall be stored in clean, dust restricting cabinets with well-fitting doors or other suitable containers with well-fitting lids.

(2) All medication shall be clearly marked, or labeled.

(3) Manufacturers' labels, including expiration date, shall not be removed or defaced.

(4) Medication such as dips, and rinses and those marked for external use only may be stored in the same cabinet but shall be physically separated from other medication.

20. Fire detection and extinguishers.—All indoor housing facilities and the indoor portion of sheltered housing facilities shall be equipped with properly maintained smoke or heat detection devices and extinguishers.

21. Outdoor housing facilities.—(1) The following categories of dogs shall not be kept in outdoor facilities, unless that practice is specifically approved by the attending veterinary practitioner in writing—

- (i) dogs that are not accustomed to the temperatures prevalent in the area or region in question;
- (ii) dog breeds that cannot tolerate the temperatures prevalent in the area or region in question, such as long-haired breeds in high temperature locations; and
- (iii) sick, infirm, aged or young animals.

(2) Outdoor facilities for dogs shall include one or more structures with roofs, i.e., one or more shelters that are accessible to each animal in each outdoor facility, and that are large enough to allow each animal within the structure to sit, stand and lie down in a normal manner, and to turn about freely and in addition, one or more separate outside areas of shade shall be provided, large enough to contain all the animals at once and protect them from the direct rays of the sun.

(3) Shelters in outdoor facilities for animals shall contain a roof, four sides and a floor, and shall—

- (i) provide the animals with adequate protection and shelter from heat and cold; and
- (ii) provide the animals with protection from the direct rays of the sun and the direct effect of wind, rain, snow or other precipitation.

(4) Primary enclosures for animals shall meet the following minimum requirements—

- (a) primary enclosures shall be constructed of suitable material and shall be structurally sound;
- (b) they shall be kept in good repair;
- (c) they shall have no sharp points or edges that can injure the animals;
- (d) they shall be such as contain the animals securely, and keep other animals from entering the enclosure;
- (e) enable the animals to remain dry and clean;
- (f) provide shelter and protection from extreme temperatures and weather conditions that may be uncomfortable for or hazardous to the animals;
- (g) provide sufficient shade to shelter all the animals housed in the primary enclosure at one time;
- (h) provide all the animals with easy and convenient access to clean food and water;
- (i) enable all surfaces that come in contact with the animals to be readily cleaned and sanitized, or replaced when worn or soiled ;
- (j) have floors that are constructed in a manner that protects the animal's feet and legs from injury; and
- (k) provide sufficient space to allow each animal to turn about freely, to stand, sit and lie down in a comfortable, normal position, and to walk in a normal manner;

(5) Each dog housed in a primary enclosure (including weaned puppies) shall be provided a minimum amount of floor space, calculated as follows—

- (a) length of the enclosure: four times the length of the dog, measured from the tip of its nose to the base of its tail; and
- (b) breadth of the enclosure: two times the length of the dog, measured from the tip of its nose to the base of its tail.

(6) Each female dog with nursing puppies shall be provided with an additional amount of floor space, based on her breed and behavioral characteristics, and in accordance with generally accepted husbandry practices as determined by the attending veterinarian.

(7) The interior height of a primary enclosure shall be at least six inches higher than the head of the tallest dog in the enclosure when it is in a normal standing position.

(8) Cages or crates used to contain animals for short periods of time shall be large enough to permit the animal to stand, sit, lie and turn around in a normal manner.

(9) Dogs shall not be caged except at night when the caregiver retires, or when necessary for medical reasons.

22. Dogs on tethers.—(1) Dogs may be kept on tethers only in outside housing facilities that meet the requirements of this rule, and only when the tether meets the requirements of this paragraph.

(2) The tether shall be attached to the front of the dog's shelter structure or to a post in front of the shelter structure and shall be at least three times the length of the dog, as measured from the tip of its nose to the base of its tail.

(3) The tether shall allow the dog convenient access to the shelter structure, and to food and water containers.

(4) The tether shall be of the type and strength commonly used for the size of dog involved, and shall be attached to the dog by a well-fitted collar that does not cause trauma or injury to the dog.

(5) Collars made of materials such as wire, flat chains, or chains with sharp edges, or chains with rusty or non-uniform links, are prohibited.

(6) The tether shall be attached such that the dog is not in danger of becoming entangled with other objects or coming into physical contact with other dogs in the outside housing facility, and such that the dog is able to roam to the full range of the tether.

(7) A perimeter fence that is of sufficient height to keep unwanted animals out shall enclose the dog housing area where dogs are on tethers.

(8) The fence shall be constructed such that it protects the dogs by preventing other dogs of equal or greater size from going through it or under it, or even above it, and coming into contact with the dogs inside.

23. Compatibility.—(1) All dogs housed in the same primary enclosure shall be compatible, as determined by observation.

(2) Not more than twelve adult dogs shall be housed in the same primary enclosure.

(3) Female dogs in heat shall not be housed in the same primary enclosure with sexually mature males, except for breeding.

(4) Except when maintained in breeding colonies, female dogs with litters shall not be housed in the same primary enclosure with other adult dogs; puppies less than four months of age shall not be housed in the same primary enclosure with adult dogs other than their dam or foster dam.

(5) Dogs with a vicious or aggressive disposition shall be housed separately from other dogs.

(6) Dogs that have or are suspected of having a contagious disease shall be isolated from healthy animals.

(7) When an entire group or room of animals is known to have or believed to be exposed to an infectious or contagious agent, the group may be kept intact during the process of diagnosis, treatment and control.

24. Exercise for dogs and socialising.—(1) Commercial kennels, commercial breeders, traders, other dealers, and exhibitors shall develop, document and follow an appropriate plan to provide dogs with an opportunity for exercise.

(2) The plan shall be approved and signed by the breeder and the attending veterinarian, and include written standard procedures to be followed in providing the opportunity for exercise.

(3) The plan shall also be made available to the State Board upon request.

(4) The plan shall, at a minimum, comply with each of the following—

(a) dogs over twelve weeks of age, except female dogs with litters, housed, held or maintained by any animal shelter, boarding kennel, commercial kennel, commercial breeder, trader, other dealer, exhibitor, or other licensee shall be provided the opportunity for exercise regularly; and

(b) the frequency, method and duration of the opportunity for exercise shall be determined by the consultant veterinary practitioner.

(5) The breeder, in developing their plan, shall consider providing positive physical contact with humans that encourages exercise through play or other similar activities and if a dog is housed, held or maintained at a facility without sensory contact with another dog, it shall be provided with positive physical contact with humans at least once daily.

(6) The opportunity for exercise may be provided in a number of ways, including—

- (a) group housing in cages, pens or runs that provide at least one hundred percent of the required space for each dog if maintained separately under the minimum floor space requirements of this rule;
- (b) providing access to a run or open area at the frequency and duration prescribed by the attending veterinarian;
- (c) adequate exercise either in a fenced area or on a leash with a person on the other end;
- (d) exercising for at least thirty minutes twice per day;
- (e) socialising with people at suitable intervals equaling at least three hours per day for adult and five hours per day for puppies less than four months of age; and
- (f) other similar activities.

(7) Every establishments shall keep checklists documenting the name of the caretakers who complete these tasks, and the time at which each does so and checklists shall be made available to the Board during inspections, or when demanded.

(8) Every establishment shall ensure that forced exercise methods or devices such as swimming, treadmills or carousel-type devices are resorted to or used:

Provided that if, in the opinion of the veterinary practitioner, it is inappropriate for certain dogs to exercise because of their health, condition or well-being, the breeder may be exempted from meeting the requirements of this paragraph for those specific dogs only.

25. Feeding.—(1) Animals shall be fed as per prescribed standards.

(2) The food shall be uncontaminated, wholesome, palatable and of sufficient quantity and nutritive value to maintain the normal condition and weight of the animal.

(3) The diet shall be appropriate for the individual animal's age and condition.

(4) Food receptacles used for animals shall be readily accessible to all animals and shall be located so as to minimise contamination by excreta and be protected from the rain. Feeding pans shall be made of a durable material that can easily be cleaned and sanitized and shall be kept clean.

26. Cleaning, sanitisation, and housekeeping.—(1) Excreta and food waste shall be removed from primary enclosures daily, and from under primary enclosures as often as necessary, to prevent an excessive accumulation of feces and food waste, to prevent soiling of the animals contained in the primary enclosures, and to reduce disease hazards, insects, and odors.

(2) When water is used to clean the primary enclosure, whether by hosing, flushing or other methods, animals shall be removed unless the enclosure is large enough to ensure that the animals will not be harmed, wetted or distressed in the process.

(3) Standing water shall be removed from the primary enclosure and adjacent areas.

(4) Animals in other primary enclosures shall be protected from being contaminated with water and other wastes during the cleaning.

(5) Hard surfaces of primary enclosures and food and water receptacles shall be cleaned and sanitised, by washing them with appropriate detergent solutions and application of disinfectants.

(6) Pens, runs and outdoor housing areas using material that cannot be cleaned and sanitised using the method previously stated, such as gravel, sand, grass, earth or absorbent bedding, shall be cleaned and sanitised by removing the contaminated material as necessary to prevent odors, disease hazards, and insects.

27. Housekeeping for premises.—In an establishment where housing facilities are located, including buildings and surrounding grounds, shall be kept clean and in good repair, and free of accumulations of trash,

junk, waste products and discarded matter and weeds, grasses and bushes shall be controlled so as to facilitate cleaning of the facility, control and prevent fleas and ticks, and protect the health and well-being of the animals and regular de-ticking shall be practiced at the time of grooming.

28. Annual vaccination of dogs.—The dogs at every breeding establishment shall be annually vaccinated against rabies (and preferably against canine distemper, parvo-virus, leptospirosis and viral hepatitis).

29. Employees.—(1) Every breeder shall have enough employees to carry out the level of husbandry practices and care required by these rules.

(2) The employees who provide for husbandry and care or handle animals shall be properly trained, and supervised by an individual who has the requisite degree of knowledge, background and experience in proper husbandry and care of dogs to be able to do so.

30. Identification of dogs.—Every breeder shall ensure that—

- (a) every dog is identified by an official tag affixed to the collar of each dog;
- (b) identification of all breeding stock and of pups over three months, are performed by a veterinary practitioner through micro-chipping;
- (c) tags are sequentially numbered and referenced to record which completely and accurately identify the source of the dog, all medical treatment or procedures that it may have been subjected to, and the disposition of the animal; and
- (d) the micro-chips are allotted sequential numbers for the same purpose and a record of the tag number and micro-chip number used to identify the dog accompany each dog that is sold or otherwise moved out of the establishment.

[F. No.1/1/2010-AWD (Pt.)]

RAVI SHANKER PRASAD, Jt. Secy.